

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को फोर्ब्स द्वारा 2021 में कैंनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स में से एक के तौर पर सम्मानित किया गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (27 जनवरी, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को फोर्ब्स (Forbes) द्वारा [कैंनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स 2021 \(Canada's Best Employers 2021\)](#) में से एक के तौर पर सम्मानित किया गया है। यह कैंनेडा में 300 श्रेष्ठ इम्प्लायर्स की सूची है।

यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब सिटी को फोर्ब्स (Forbes) सूची में दर्जा मिला है। इस वर्ष, सिटी को 300 में से 58^{वां} दर्जा मिला है।

फोर्ब्स ने कैंनेडा के श्रेष्ठ इम्प्लायर्स की वार्षिक रैंकिंग में, कर्मचारियों द्वारा बेहतरीन के तौर पर पसंद की गई कंपनियों की पहचान करने के लिए मार्केट रिसर्च कंपनी स्टैटिस्टा (Statista) के साथ भागीदारी की है।

फोर्ब्स और स्टैटिस्टा ने, कैंनेडा में 500 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए काम करने वाले, कैंनेडा के 8,000 से अधिक कर्मचारियों के एक व्यापक नमूने का इस्तेमाल करके किए गए, स्वतंत्र सर्वेक्षण के द्वारा, कैंनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स 2021 (Canada's Best Employers 2021) का चयन किया। मूल्यांकन, उन कर्मचारियों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिफारिशों पर आधारित था, जिन्हें यह दर्जा देने के लिए कहा गया था कि कितनी संभावना है कि वे अपने दोस्तों और परिवार को, अपने इम्प्लायर के साथ काम करने की सिफारिश करेंगे। कर्मचारी मूल्यांकनों में उनकी संबंधित इंडस्ट्रीज के अन्य इम्प्लायर्स भी शामिल हैं, जो सकारात्मक या नकारात्मक तौर पर उनसे अलग थे।

संक्षेप तथ्य

- नवंबर 2019 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने [पंचवर्षीय, वर्कप्लेस डायवर्सिटी एंड इन्क्लूजन स्ट्रैटजी एंड वर्क प्लान \(five-year Workplace Diversity and Inclusion Strategy and Work Plan\)](#) तैयार किया। यह अधिक सम्मिलित, ऐसी संगठनात्मक संस्कृति विकसित करने के अवसर प्रदान करता है, जो अपने लोगों को शामिल करता हो, उन्हें विकसित करता हो और उनका जश्न मनाता हो और विविध कार्यबल को आकर्षित करता हो।
- दिसम्बर में, सिटी ने घोषणा की कि वह, [अपने कर्मचारियों और नागरिकों के इस्तेमाल के लिए, इक्विटी ऑफिस \(Equity Office to serve its employees and citizens\)](#) की नींव रख रही है। इक्विटी ऑफिस (Equity Office), जाति, नसल, मूल स्थान, रंग, जातीयता मूल, विकलांकता, नागरिकता, संप्रदाय, लिंग, यौन निर्धारण, लिंग संबंधी पहचान, एक लिंग वाली पार्टनरशिप, उम्र, वैवाहिक स्थिति, पारवारिक स्थिति, इमीग्रेंट स्थिति, सार्वजनिक सहायता की प्राप्ति, राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध, साक्षरता के स्तर, भाषा और/या सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना, कार्यस्थल औपर समुदाय में रुकावटों को पहचान कर, उन्हें दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

हवाले

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अच्छी तरह से संचालित शहर है और हमारे कर्मचारी, हमारे निवासियों के लिए ऐसा समुदाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सुरक्षित, स्थिर और सफल हो। हमें लगातार तीसरे वर्ष, फोर्ब्स द्वारा कॅनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स में के एक तौर पर, सम्मानित किए जाने पर गर्व है। हम अपने पूर्व और वर्तमान स्टाफ के लिए, पसंदीदा इम्प्लायर बनना जारी रखेंगे।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक मोजैक है। सिटी में, हमने विविध कार्यबल विकसित करना जारी रखा हुआ है, जो उस समुदाय पर विचार करता हो, जिसे हम सेवा देते हैं। हमारी वर्कप्लेस डायवर्सिटी एंड इन्क्लूजन स्ट्रैटजी एंड वर्क प्लान और इक्विटी ऑफिस जैसी पहलकदमियों के द्वारा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि सभी व्यक्तियों के साथ, निष्पक्ष और बराबरी वाला व्यवहार हो और सिटी के स्टाफ के लिए समान वातावरण हो।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी काउंसलर, वार्ड 9 व 10, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी लगातार, कार्यस्थल पर रुकावटों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है, ताकि यह सभी के लिए निष्पक्ष और बराबरी वाला हो। हम हमारे उन कर्मचारियों हेतु अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनमें हमारे निवासियों की सेवा करने को लेकर जोश है। हम खास और सम्मिलित कार्यस्थल संस्कृति बना रहे हैं। हमें, फोर्ब्स द्वारा कॅनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स में से एक के तौर पर, दुबारा सम्मानित किए जाने पर गर्व है।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, वाइस-चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे कर्मचारियों के द्वारा, लगातार तीसरे वर्ष, कॅनेडा के बेस्ट इम्प्लायर्स में से एक के तौर पर, फोर्ब्स द्वारा सम्मानित किया जाना, सिटी द्वारा ऐसी सम्मिलित संस्कृति विकसित करने के जोश को दर्शाता है, जो यहां के लोगों को शामिल करती हो, उनका विकास करती है और जश्न मनाती हो और विविध कार्यबल को आकर्षित करती हो। मैं हमारे कर्मचारियों को, हमारे संगठन में उनके विश्वास और योगदानों के सम्मानित करना चाहता हूँ; जो लगातार, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए परिणाम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस विविध समुदाय द्वारा प्रोत्साहित होते हैं, जिसे हम सेवा प्रदान करते हैं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कॅनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca